

# Rom

## Chapter 16

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην, τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὕσας «καὶ» διάκονον  
सिफारिश-करता-हूँ परन्तु तुम्हें फोइबी-को -को बहन-की हमारी जो-है भी सेविका  
[G4921](#) [G1161](#) [G4771](#) [G5402](#) [G3588](#) [G0079](#) [G1473](#) [G1510](#) [G2532](#) [G1249](#)

τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κενυρααῖς,  
-की कलीसिया-की जो -में केखियाई-में  
[G3588](#) [G1577](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2747](#)

मैं किखिया की कलीसिया की विशेष सेविका हमारी बहन फ़ीबे की तुम से सिफारिश करता हूँ

2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ, ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστήτε  
कि उसे ग्रहण-करो में प्रभु-में योग्य-रीति-से -के पवित्रों-के और सहायता-करो  
[G2443](#) [G0846](#) [G4327](#) [G1722](#) [G2962](#) [G0516](#) [G3588](#) [G0040](#) [G2532](#) [G3936](#)

αὐτῆ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζη πράγματι. καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις  
उसकी में जिसमें कभी तुम्हारी ज़रूरत-हो कार्य-में भी क्योंकि वह-स्वयं रक्षिका  
[G0846](#) [G1722](#) [G3739](#) [G0302](#) [G4771](#) [G5535](#) [G4229](#) [G2532](#) [G1063](#) [G0846](#) [G4368](#)

πολλῶν ἐγενήθη, καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.  
बहुतों-की बनी और मेरी-भी स्वयं  
[G4183](#) [G1096](#) [G2532](#) [G1473](#) [G0846](#)

कि तुम उसे प्रभु में ऐसी रीति से ग्रहण करो जैसी रीति परमेश्वर के लोगों के योग्य है। उसे तुमसे जो कुछ अपेक्षित हो सब कुछ से तुम उसकी मदद करना क्योंकि वह मुझे समेत बहुतों की सहायक रही है।

3 Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν, τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ --  
नमस्कार-करो प्रिस्का-को और अकूला-को -को सहकर्मियों-को मेरे में मसीह-में यीशु-में  
[G0782](#) [G4251](#) [G2532](#) [G0207](#) [G3588](#) [G4904](#) [G1473](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#)

प्रिस्का और अक्विला को मेरा नमस्कार। वे यीशु मसीह में मेरे सहकर्मी हैं।

4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ  
जिन्होंने -के-लिए -की प्राण-के मेरे -को अपनी गर्दन रखी जिनको नहीं  
[G3748](#) [G5228](#) [G3588](#) [G5590](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1438](#) [G5137](#) [G5294](#) [G3739](#) [G3756](#)

ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πάνσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν --  
मैं अकेला धन्यवाद-देता-हूँ परन्तु भी सब वे कलीसियाएँ -की जातियों-की  
[G1473](#) [G3441](#) [G2168](#) [G0235](#) [G2532](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3588](#) [G1484](#)

उन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिये अपने जीवन को भी दाव पर लगा दिया था। न केवल मैं उनका धन्यवाद करता हूँ बल्कि ग़ैर यहूदियों की सभी कलीसिया भी उनके धन्यवादी हैं।

5 καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον, τὸν ἀγαπητὸν  
और -को -में घर-में उनके कलीसिया-को नमस्कार-करो इपैनेतुस-को -को प्रिय-को  
[G2532](#) [G3588](#) [G2596](#) [G3624](#) [G0846](#) [G1577](#) [G0782](#) [G1866](#) [G3588](#) [G0027](#)

μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν.  
मेरे जो है प्रथमफल -का आसिया-का -के-लिए मसीह-के  
[G1473](#) [G3739](#) [G1510](#) [G0536](#) [G3588](#) [G0773](#) [G1519](#) [G5547](#)

उस कलीसिया को भी मेरा नमस्कार जो उनके घर में एकत्र होती है। मेरे प्रिय मित्र इपनिटुस को मेरा नमस्कार जो एशिया में मसीह को अपनाने वालों में पहला है।

6 ἀσπάσασθε Μαριάν, ἣτις πολλά ἔκοπίασεν εἰς ὑμᾶς.  
नमस्कार-करो मरियम-को जिसने बहुत परिश्रम-किया -के-लिए तुम्हारे  
[G0782](#) [G3137](#) [G3748](#) [G4183](#) [G2872](#) [G1519](#) [G4771](#)

मरियम को, जिसने तुम्हारे लिये बहुत काम किया है नमस्कार।

7 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν, τοὺς συγγενεῖς μου καὶ, συναιχμαλώτους  
नमस्कार-करो अन्द्रोनिकुस-को और इऊनिया-को -को सम्बन्धियों-को मेरे और सह-बन्धियों-को  
[G0782](#) [G0408](#) [G2532](#) [G2458](#) [G3588](#) [G4773](#) [G1473](#) [G2532](#) [G4869](#)

μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἱ καὶ πρὸ ἐμοῦ  
मेरे जो हैं प्रसिद्ध में -में प्रेरितों-में जो भी -से-पहले मुझसे  
[G1473](#) [G3748](#) [G1510](#) [G1978](#) [G1722](#) [G3588](#) [G0652](#) [G3739](#) [G2532](#) [G4253](#) [G1473](#)

γέγοναν ἐν Χριστῷ.  
हुए में मसीह-में  
[G1096](#) [G1722](#) [G5547](#)

मेरे कुटुम्बी अन्द्रनीकुस और यूनियास को, जो मेरे साथ कारागार में थे और जो प्रमुख धर्म-प्रचारकों में प्रसिद्ध हैं, और जो मुझ से भी पहले मसीह में थे, मेरा नमस्कार।

8 ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶτον, τὸν ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ.  
नमस्कार-करो अम्पलियातुस-को -को प्रिय-को मेरे में प्रभु-में  
[G0782](#) [G0291](#) [G3588](#) [G0027](#) [G1473](#) [G1722](#) [G2962](#)

प्रभु में मेरे प्रिय मित्र अम्पलियातुस को नमस्कार।

9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν, τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στάχυν τὸν  
नमस्कार-करो उरबानुस-को -को सहकर्मी-को हमारे में मसीह-में और स्ताखुस-को -को  
[G0782](#) [G3773](#) [G3588](#) [G4904](#) [G1473](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2532](#) [G4720](#) [G3588](#)

ἀγαπητόν μου.  
प्रिय-को मेरे  
[G0027](#) [G1473](#)

मसीह में हमारे सहकर्मी उरबानुस तथा मेरे प्रिय मित्र इस्तुखुस को नमस्कार।

10 ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν, τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν  
नमस्कार-करो अपेल्लेस-को -को प्रमाणित-को में मसीह-में नमस्कार-करो -को -से -के  
[G0782](#) [G0559](#) [G3588](#) [G1384](#) [G1722](#) [G5547](#) [G0782](#) [G3588](#) [G1537](#) [G3588](#)

Ἀριστοβούλου.  
अरिस्तोबूलुस-के-घरानों-को  
[G0711](#)

मसीह में खरे और सच्चे अपिल्लेस को नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के परिवार को नमस्कार।

11 ἀσπάσασθε Ἡρωδίωνα, τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν  
नमस्कार-करो हेरोदियोन-को -को सम्बन्धी-को मेरे नमस्कार-करो -को -से -के  
[G0782](#) [G2267](#) [G3588](#) [G4773](#) [G1473](#) [G0782](#) [G3588](#) [G1537](#) [G3588](#)

Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ.  
नारकिस्सुस-के-घरानों-को उन-को जो-हैं में प्रभु-में  
[G3488](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1722](#) [G2962](#)

यहूदी साथी हिरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के परिवार के उन लोगों को नमस्कार जो प्रभु में हैं।

12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν, τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίῳ.  
नमस्कार-करो त्रूफैना-को और त्रूफोसा-को -को परिश्रम-करनेवालीयों-को में प्रभु-में  
[G0782](#) [G5170](#) [G2532](#) [G5173](#) [G3588](#) [G2872](#) [G1722](#) [G2962](#)

ἀσπάσασθε Περσίδα, τὴν ἀγαπητὴν, ἣτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ.  
नमस्कार-करो पेरसिस-को -को प्रिया-को जिसने बहुत परिश्रम-किया में प्रभु-में  
[G0782](#) [G4069](#) [G3588](#) [G0027](#) [G3748](#) [G4183](#) [G2872](#) [G1722](#) [G2962](#)

त्रुफैना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, नमस्कार। मेरी प्रिया परसिस को, जिसने प्रभु में कठिन परिश्रम किया है, मेरा नमस्कार।

13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον, τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ  
नमस्कार-करो रूफुस-को -को चुने-हुए-को में प्रभु-में और -को माता-को उसकी और  
[G0782](#) [G4504](#) [G3588](#) [G1588](#) [G1722](#) [G2962](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3384](#) [G0846](#) [G2532](#)

ἐμοῦ.

मेरी

[G1473](#)

प्रभु के असाधारण सेवक रूफुस को और उसकी माँ को, जो मेरी भी माँ रही है, नमस्कार।

14 ἀσπάσασθε Ἀσύνκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατρόβαν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν  
नमस्कार-करो असुनक्रितुस-को फ्लेगोन-को हेरमेस-को पात्रोबास-को हेरमास-को और -को -के-साथ  
[G0782](#) [G0799](#) [G5393](#) [G2060](#) [G3969](#) [G2057](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4862](#)

αὐτοῖς ἀδελφούς,

उनके भाइयों-को

[G0846](#) [G0080](#)

असुंक्रितुस, फिलगोन, हिर्मेस, पत्रुबास, हिर्मोस और उनके साथी बंधुओं को नमस्कार।

15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ  
नमस्कार-करो फिलोलोगुस-को और इऊलिया-को नेरेउस-को और -को बहन-को उसकी और  
[G0782](#) [G5378](#) [G2532](#) [G2456](#) [G3517](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0079](#) [G0846](#) [G2532](#)

Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντα ἁγίους.

ओलुम्पास-को और -को -के-साथ उनके सब पवित्रों-को

[G3652](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4862](#) [G0846](#) [G3956](#) [G0040](#)

फिलुलुगुस, यूलिया, नेर्युस तथा उसकी बहन उलुम्पास और उनके सभी साथी संतों को नमस्कार।

16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς, αἱ ἐκκλησίαι  
नमस्कार-करो एक-दूसरे-को में चुम्बन-से पवित्र नमस्कार-करती-हैं तुम्हें वे कलीसियाएँ  
[G0782](#) [G0240](#) [G1722](#) [G5370](#) [G0040](#) [G0782](#) [G4771](#) [G3588](#) [G1577](#)

παῖσαι τοῦ Χριστοῦ.

सब -की मसीह-की

[G3956](#) [G3588](#) [G5547](#)

तुम लोग पवित्र चुंबन द्वारा एक दूसरे का स्वागत करो। तुम्हें सभी मसीही कलीसियों की ओर से नमस्कार।

17 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ  
विनती-करता-हूँ परन्तु तुम्हें भाइयो देखना -को वे फूटों-को और -को  
[G3870](#) [G1161](#) [G4771](#) [G0080](#) [G4648](#) [G3588](#) [G3588](#) [G1370](#) [G2532](#) [G3588](#)

σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε, ποιοῦντας; καὶ ἐκκλίνετε  
ठोकरो-को -के-विरुद्ध -की शिक्षा-के जो तुमने सीखी करनेवालों-को और बचो  
[G4625](#) [G3844](#) [G3588](#) [G1322](#) [G3739](#) [G4771](#) [G3129](#) [G4160](#) [G2532](#) [G1578](#)

ἀπ' αὐτῶν.

-से उनसे

[G0575](#) [G0846](#)

हे भाइयो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुमने जो शिक्षा पाई है, उसके विपरीत तुममें जो फूट डालते हैं और दूसरों के विश्वास को बिगाड़ते हैं, उनसे सावधान रहो, और उनसे दूर रहो।

- 18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι, τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ, οὐ δουλεύουσιν, ἀλλὰ τῇ  
वे क्योंकि ऐसे -के प्रभु-के हमारे मसीह-की नहीं सेवा-करते परन्तु -की  
[G3588](#) [G1063](#) [G5108](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G5547](#) [G3756](#) [G1398](#) [G0235](#) [G3588](#)
- ἐαυτῶν κοιλία; καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς  
अपनी पेट-की और -से -की चिकनी-बातों-से और आशीर्वाद-से धोखा-देते-हैं -की  
[G1438](#) [G2836](#) [G2532](#) [G1223](#) [G3588](#) [G5542](#) [G2532](#) [G2129](#) [G1818](#) [G3588](#)
- καρδίας τῶν ἀκάκων.  
हृदयों-को -की भोलों-की  
[G2588](#) [G3588](#) [G0172](#)

क्योंकि ये लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की उपासना करते हैं। और अपनी खुशामद भरी चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले लोगों के हृदय को छलते हैं।

- 19 ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοή, εἰς πάντα ἀφίκετο. ἐφ' ὑμῖν, οὖν χαίρω,  
वह क्योंकि तुम्हारी आज्ञाकारिता -तक सबों-को पहुँची-है -पर तुम्हारे इसलिए आनन्दित-हूँ  
[G3588](#) [G1063](#) [G4771](#) [G5218](#) [G1519](#) [G3956](#) [G0864](#) [G1909](#) [G4771](#) [G3767](#) [G5463](#)
- θέλω δεῦ ὑμᾶς σοφοῦς (μὲν) εἶναι, εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίου δὲ  
चाहता-हूँ परन्तु तुम्हें बुद्धिमान तो होना -के-लिए -के भलाई-के निर्दोष परन्तु  
[G2309](#) [G1161](#) [G4771](#) [G4680](#) [G3303](#) [G1510](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0018](#) [G0185](#) [G1161](#)
- εἰς τὸ κακόν.  
-के-लिए -के बुराई-के  
[G1519](#) [G3588](#) [G2556](#)

तुम्हारी आज्ञाकारिता की चर्चा बाहर हर किसी तक पहुँच चुकी है। इसलिये तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किन्तु मैं चाहता हूँ कि तुम नेकी के लिये बुद्धिमान बने रहो और बुराई के लिये अबोध रहो।

- 20 ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοῦ πόδα  
वह परन्तु परमेश्वर -की शान्ति-का कुचल-देगा -को शैतान-को -के-नीचे -के पैरों-के  
[G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1515](#) [G4937](#) [G3588](#) [G4567](#) [G5259](#) [G3588](#) [G4228](#)
- ὑμῶν ἐν τᾶχει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν.  
तुम्हारे में शीघ्र-में वह अनुग्रह -के प्रभु-की हमारे यीशु मसीह-की -के-साथ तुम्हारे  
[G4771](#) [G1722](#) [G5034](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3326](#) [G4771](#)

शांति का स्रोत परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का तुम पर अनुग्रह हो।

- 21 Ἀσπάζεταιται ὑμᾶς Τιμόθεος, ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος, καὶ Ἰάσων,  
नमस्कार-करता-है तुम्हें तीमुथियुस -ने सहकर्मी मेरा और लूकियुस और यासोन  
[G0782](#) [G4771](#) [G5095](#) [G3588](#) [G4904](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3066](#) [G2532](#) [G2394](#)
- καὶ Σωσίπατρος, οἱ συγγενεῖς μου.  
और सोसिपात्रुस वे सम्बन्धी मेरे  
[G2532](#) [G4989](#) [G3588](#) [G4773](#) [G1473](#)

हमारे साथी कार्यकर्ता तीमुथियुस और मेरे यहूदी साथी लूकियुस, यासोन तथा सोसिपात्रुस की ओर से तुम्हें नमस्कार।

- 22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ, Τέρτιος, ὁ γράφας τὴν ἐπιστολήν, ἐν Κυρίῳ.  
नमस्कार-करता-हूँ तुम्हें मैं तेरतियुस जो लिखनेवाला -को पत्र-को में प्रभु-में  
[G0782](#) [G4771](#) [G1473](#) [G5060](#) [G3588](#) [G1125](#) [G3588](#) [G1992](#) [G1722](#) [G2962](#)

इस पत्र के लेखक मुझ तिरतियुस का प्रभु में तुम्हें नमस्कार।

23 ἀσπάζεταιται ὑμᾶς Γάιος, ὁ ξένος μου, καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας.  
 नमस्कार-करता-है तुम्हें गायुस -ने अतिथि-सत्कारी मेरा और पूरी -की कलीसिया-का  
[G0782](#) [G4771](#) [G1050](#) [G3588](#) [G3581](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3650](#) [G3588](#) [G1577](#)

ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος, ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ Κούαρτος, ὁ  
 नमस्कार-करता-है तुम्हें इरास्तुस -ने भण्डारी -का नगर-का और क्वार्टुस -ने  
[G0782](#) [G4771](#) [G2037](#) [G3588](#) [G3623](#) [G3588](#) [G4172](#) [G2532](#) [G2890](#) [G3588](#)

ἀδελφός,  
 भाई  
[G0080](#)

मेरे और समूची कलीसिया के आतिथ्यकर्ता गायुस का तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का खजांची है और हमारे बन्धुक्वारतुस का तुम को नमस्कार।

24 ῥῆ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν».  
 वह अनुग्रह -के प्रभु-की हमारे यीशु मसीह-की -के-साथ सब तुम्हारे आमीन  
[G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3326](#) [G3956](#) [G4771](#) [G0281](#)

25 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, καὶ τὸ  
 -को परन्तु समर्थ-को तुम्हें दृढ़-करने-में अनुसार -के सुसमाचार-के मेरे और -के  
[G3588](#) [G1161](#) [G1410](#) [G4771](#) [G4741](#) [G2596](#) [G3588](#) [G2098](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3588](#)

κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου, χρόνοις αἰώνιους  
 प्रचार-के यीशु मसीह-के अनुसार प्रकाशन-के भेद-के समयों अनन्त  
[G2782](#) [G2424](#) [G5547](#) [G2596](#) [G0602](#) [G3466](#) [G5550](#) [G0166](#)

σεσιγημένου,  
 छिपाए-गए-को  
[G4601](#)

उसकी महिमा हो जो तुम्हारे विश्वास के अनुसार यानी यीशु मसीह के सन्देश के जिस सुसमाचार का मैं उपदेश देता हूँ उसके अनुसार तुम्हें सुदृढ़ बनाने में समर्थ है। परमेश्वर का यह रहस्यपूर्ण सत्य युगयुगान्तर से छिपा हुआ था।

26 φανερωθέντος δὲ νῦν, διὰ τε γραφῶν προφητικῶν, κατ' ἐπιταγὴν τοῦ  
 प्रकट-किए-गए-को परन्तु अब -से भी शास्त्रों-से भविष्यद्वक्ताओं-के अनुसार आज्ञा-के -के  
[G5319](#) [G1161](#) [G3568](#) [G1223](#) [G5037](#) [G1124](#) [G4397](#) [G2596](#) [G2003](#) [G3588](#)

αἰώνιου Θεοῦ, εἰς ὑπακοήν πίστεως, εἰς πάντα τὰ ἔθνη  
 अनन्त परमेश्वर-की -के-लिए आज्ञाकारिता-के विश्वास-की -को सब -को जातियों-को  
[G0166](#) [G2316](#) [G1519](#) [G5218](#) [G4102](#) [G1519](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1484](#)

γνωρισθέντος,  
 जाना-गया-को  
[G1107](#)

किन्तु जिसे अनन्त परमेश्वर के आदेश से भविष्यद्वक्ताओं के लेखों द्वारा अब हमें और गैर यहूदियों को प्रकट करके बता दिया गया है जिससे विश्वास से पैदा होने वाली आज्ञाकारिता पैदा हो।

27 μόνῳ σοφῷ Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἢ δόξα εἰς τοὺς  
 अकेले बुद्धिमान परमेश्वर-की -से यीशु मसीह-के जिसकी वह महिमा -के-लिए -के  
[G3441](#) [G4680](#) [G2316](#) [G1223](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3739](#) [G3588](#) [G1391](#) [G1519](#) [G3588](#)

αἰῶνας πᾶτων αἰώνων ἄμήν.  
 युगों-के -के युगों-तक आमीन  
[G0165](#) [G3588](#) [G0165](#) [G0281](#)

यीशु मसीह द्वारा उस एक मात्र ज्ञानमय परमेश्वर की अनन्त काल तक महिमा हो। आमीन!